

14 अगस्त 2021

क्षेत्रीय NSW के लिए आज शाम 5 बजे से घर पर रहने के आदेश

NSW के लोगों को COVID-19 के बढ़ते हुए प्रकोप से बचाने के लिए, सभी क्षेत्रीय NSW के लिए नए प्रतिबंध लागू किए जाएंगे, जो आज रात 5 बजे से रविवार 22 अगस्त 2021 को दोपहर 12.01 बजे तक प्रभावी रहेंगे।

NSW के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉ केरी चैंट की अद्यतन स्वास्थ्य सलाह के बाद, घर पर रहने के आदेश क्षेत्रीय NSW में रहने वाले सभी लोगों पर लागू होंगे।

इसका मतलब है कि पूरे न्यू साउथ वेल्स में आज शाम 5 बजे से घर पर रहने की पाबंदी रहेगी।

यह नया आदेश क्षेत्रीय NSW में किसी भी मौजूदा आदेश का स्थान लेगा।

जब तक उनके पास जाने का कोई उचित बहाना न हो, सभी को घर पर ही रहना चाहिए। उनके घर में उनके परिवार और दोस्तों सहित उनके घर से बाहर के मिलने वाले लोग भी नहीं हो सकते हैं।

लोग अभी भी देखभालकर्ताओं की जिम्मेदारियों को पूरा करने या देखभाल या सहायता प्रदान करने या अनुकंपा कारणों से एक समय में एक आगंतुक को आने दे सकते हैं, जिसमें शामिल हैं वे दो लोग भी जो एक रिश्ते में हैं लेकिन एक साथ नहीं रहते।

टेकअवे को छोड़कर, पब, रेस्तरां और कैफ़े सहित सभी आतिथ्य स्थल जनता के लिए अवश्य ही बंद होने चाहिए।

रिटेल (खुदरा) परिसर को बंद करना आवश्यक है सिवाय निम्न के:

- सुपरमार्केट और किराने की दुकानें,
- ऐसी दुकानें जो मुख्य रूप से भोजन या पेय बेचती हैं जैसे कसाई, बेकरी, फलों की दुकानें और स्वादिष्ट व्यंजन, लेकिन इसमें रेस्तरां या कैफ़े शामिल नहीं हैं।
- केमिस्ट और फार्मसियाँ,
- कियोस्क
- ऐसी दुकानें जो मुख्य रूप से कार्यालय की आपूर्ति, पालतू जानवरों की आपूर्ति, समाचार पत्र, पत्रिकाएँ और स्टेशनरी, शराब, मातृत्व और शिशु आपूर्ति, चिकित्सा या दवा की आपूर्ति बेचती हैं
- खाने-पीने के परिसर, लेकिन केवल टेकअवे बेचने के लिए
- शराब के तहखाने वाले परिसर, लेकिन केवल टेकअवे बेचने के लिए
- हार्डवेयर और भवन निर्माण की आपूर्ति
- भूनिर्माण सामग्री की आपूर्ति
- ग्रामीण आपूर्ति
- लकड़ी के यार्ड
- उद्यान केंद्र और पौध नर्सरी,
- वाहन किराए पर लेने का परिसर, इसमें वह परिसर शामिल नहीं है जहां वाहन बेचे जाते हैं,
- ऐसी दुकानें जो मुख्य रूप से मोबाइल फ़ोन की मरम्मत करती हैं।

सर्विस स्टेशन, बैंक, डाकघर, लॉन्ड्रोमैट और ड्राईक्लीनर खुले रह सकते हैं।

जो कोई भी अपने घर से बाहर निकलता है, उसे हर समय अपने साथ मास्क रखना चाहिए। उन्हें बाहर काम करते समय, स्कूल के सभी कर्मचारियों द्वारा, बाहरी बाजारों में सभी लोगों द्वारा, बाहरी शॉपिंग स्ट्रिप्स और कॉफ़ी और भोजन जैसे उत्पादों की प्रतीक्षा में बाहर लगी कतारों में पहना जाना चाहिए।

NSW में प्रत्येक नियोक्ता को अपने कर्मचारियों को घर से काम करने की आवश्यकता सुलभ करानी चाहिए, जब तक कि यह उचित रूप से व्यावहारिक न हो।

काम के लिए अपने घर से बाहर जाना एक उचित बहाना है - लेकिन केवल तभी जब घर से काम करना व्यावहारिक न हो।

क्षेत्रीय इलाकों में नियोजित शादियों और अंत्येष्टि के लिए एक दिन की 'अनुग्रह अवधि' होगी जो पहले से ही लॉकडाउन के अधीन नहीं है। ये कार्यक्रम सोमवार 16 अगस्त 2021 को दोपहर 12.01 बजे तक किए जा सकते हैं, लेकिन केवल उन क्षेत्रों के मेहमानों के साथ जो पहले से ही लॉकडाउन के अधीन नहीं हैं। सोमवार से, केवल 10 व्यक्तियों (सर्विस करने वाले व्यक्तियों को छोड़कर) सहित छोटे अंतिम संस्कार और स्मारक सेवाओं की अनुमति होगी।

NSW हेल्थ लोगों से आग्रह करता है कि वे सबसे हल्के सर्दी जैसे लक्षण होते ही जाँच के लिए उपस्थित रहें।

NSW में 440 से अधिक COVID-19 जाँच कराने के स्थान हैं, जिनमें से कई सप्ताह के सातों दिन खुले हैं। अपने नजदीकी जाँच क्लिनिक को खोजने के लिए, हमारी [website](#) पर जाएँ।

ग्रेटर सिडनी में [प्रभावित](#) स्थानीय सरकारी क्षेत्रों के लिए विशेष नियम लागू हैं। अधिक जानकारी के लिए, nsw.gov.au/covid-19/rules देखिए।